



# भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

## साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 32

10 फरवरी, 2017

संख्या 06

### 1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां

(₹ बिलियन)

| मद                                      | 2016            | 2017            |                 | घट – बढ़       |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|                                         | 5 फरवरी         | 27 जनवरी        | 3 फरवरी         | सप्ताह         | वर्ष            |
|                                         | 1               | 2               | 3               | 4              | 5               |
| <b>1 जारी नोट</b>                       | <b>15806.28</b> | <b>9921.21</b>  | <b>10245.25</b> | <b>324.05</b>  | <b>-5561.03</b> |
| 1.1 संचलन में नोट                       | 15806.10        | 9921.05         | 10245.10        | 324.05         | -5561.00        |
| 1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट           | 0.18            | 0.16            | 0.15            | -0.01          | -0.03           |
| <b>2 जमाराशियां</b>                     |                 |                 |                 |                |                 |
| 2.1 केंद्र सरकार                        | 1.01            | 1.00            | 1.00            | —              | -0.01           |
| 2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना               | —               | 3922.70         | 2977.26         | -945.44        | 2977.26         |
| 2.3 राज्य सरकारें                       | 0.42            | 0.42            | 0.42            | —              | —               |
| 2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक               | 3897.61         | 4341.85         | 4376.77         | 34.92          | 479.16          |
| 2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक          | 35.31           | 39.07           | 39.39           | 0.32           | 4.09            |
| 2.6 अन्य बैंक                           | 213.92          | 270.21          | 279.47          | 9.26           | 65.55           |
| 2.7 अन्य                                | 953.47          | 4469.36         | 5060.12         | 590.76         | 4106.65         |
| 3 अन्य देयताएं                          | 9646.12         | 9603.41         | 9420.09         | -183.32        | -226.03         |
| <b>कुल देयताएं / आस्तियां</b>           | <b>30554.14</b> | <b>32569.24</b> | <b>32399.77</b> | <b>-169.47</b> | <b>1845.63</b>  |
| 1 विदेशी मुद्रा आस्तियां                | 22397.41        | 23398.62        | 23180.23        | -218.39        | 782.82          |
| 2 सोने के सिक्के और सोना-चांदी          | 1201.18         | 1262.87         | 1305.28         | 42.41          | 104.10          |
| 3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित) | 5583.68         | 7618.13         | 7619.05         | 0.92           | 2035.37         |
| <b>4 ऋण और अग्रिम</b>                   |                 |                 |                 |                |                 |
| 4.1 केंद्र सरकार                        | —               | —               | —               | —              | —               |
| 4.2 राज्य सरकारें                       | 8.64            | 18.63           | 19.02           | 0.39           | 10.38           |
| 4.3 नाबार्ड                             | —               | —               | —               | —              | —               |
| 4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक               | 1119.31         | 132.00          | 130.65          | -1.35          | -988.66         |
| 4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक          | 0.35            | —               | —               | —              | -0.35           |
| 4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक          | —               | —               | —               | —              | —               |
| 4.7 भारतीय निर्यात-आयात बैंक            | —               | —               | —               | —              | —               |
| 4.8 अन्य                                | 51.73           | 24.67           | 26.37           | 1.70           | -25.37          |
| <b>5 खरीदे और भुनाए गए बिल</b>          |                 |                 |                 |                |                 |
| 5.1 वाणिज्यिक                           | —               | —               | —               | —              | —               |
| 5.2 खजाना                               | —               | —               | —               | —              | —               |
| 6 निवेश                                 | 13.20           | 23.20           | 23.20           | —              | 10.00           |
| 7 अन्य आस्तियां                         | 178.64          | 91.12           | 95.97           | 4.85           | -82.67          |

### 2. विदेशी मुद्रा भंडार

| मद                                        | 3 फरवरी, 2017 को |                  | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |                |                          |                |              |                 |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------|-----------------|
|                                           |                  |                  | सप्ताह                     |                | मार्च 2016 की समाप्ति पर |                | वर्ष         |                 |
|                                           | ₹ बिलियन         | मिलि.अम. डॉलर    | ₹ बिलियन                   | मिलि.अम. डॉलर  | ₹ बिलियन                 | मिलि.अम. डॉलर  | ₹ बिलियन     | मिलि.अम. डॉलर   |
|                                           | 1                | 2                | 3                          | 4              | 5                        | 6              | 7            | 8               |
| <b>1 कुल भंडार</b>                        | <b>24,467.0</b>  | <b>363,146.7</b> | <b>-175.3</b>              | <b>1,588.8</b> | <b>679.6</b>             | <b>2,970.5</b> | <b>827.6</b> | <b>11,662.1</b> |
| 1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां                | 22,907.5         | 340,126.0        | -215.3                     | 914.7          | 716.9                    | 4,022.1        | 831.1        | 11,687.7        |
| 1.2 स्वर्ण                                | 1,305.3          | 19,248.4         | 42.4                       | 664.3          | -29.0                    | -866.6         | 104.1        | 1,551.7         |
| 1.3 विशेष आहरण अधिकार                     | 97.6             | 1,447.9          | -0.9                       | 3.8            | -2.0                     | -53.6          | -175.6       | -2,592.0        |
| 1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति | 156.6            | 2,324.4          | -1.5                       | 6.0            | -6.3                     | -131.4         | 68.0         | 1,014.7         |

### 3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ बिलियन में)

| 3 फरवरी 2017 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ =<br>₹ 4,356.37 बिलियन | 2017     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                                                              | 21 जनवरी | 22 जनवरी | 23 जनवरी | 24 जनवरी | 25 जनवरी | 26 जनवरी | 27 जनवरी | 28 जनवरी | 29 जनवरी | 30 जनवरी | 31 जनवरी | 1 फरवरी | 2 फरवरी | 3 फरवरी |
|                                                                                                              | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       | 11       | 12      | 13      | 14      |
|                                                                                                              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |         |         |
| भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष                                                                 | 4,308.6  | 4,308.6  | 4,411.6  | 4,380.1  | 4,342.6  | 4,342.6  | 4,342.2  | 4,342.2  | 4,342.2  | 4,482.5  | 4,505.9  | 4,455.5 | 4,487.7 | 4,377.2 |
| औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष                                            | 98.9     | 98.9     | 101.3    | 100.5    | 99.7     | 99.7     | 99.7     | 99.7     | 99.7     | 102.9    | 103.4    | 102.3   | 103.0   | 100.5   |

## 4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ बिलियन)

| मद                                             | 20 जनवरी 2017<br>को बकाया | निम्नलिखित अवधि में घटबढ़ |                      |                 |                |                 |
|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|                                                |                           | पखवाड़ा                   | वित्त वर्ष में अब तक |                 | वर्ष-दर-वर्ष   |                 |
|                                                |                           |                           | 2015-2016            | 2016-2017       | 2016           | 2017            |
|                                                | 1                         | 2                         | 3                    | 4               | 5              | 6               |
| <b>1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं</b>      |                           |                           |                      |                 |                |                 |
| 1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां        | 1,680.6                   | -12.0                     | 459.9                | 158.4           | 507.9          | 118.7           |
| 1.2 बैंकों से उधार                             | 588.0                     | 57.9                      | 138.7                | -56.0           | 165.2          | 51.1            |
| 1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं                | 37.3                      | -145.4                    | 124.7                | -46.8           | 103.6          | -148.8          |
| <b>2 अन्य के प्रति देयताएं</b>                 |                           |                           |                      |                 |                |                 |
| 2.1 कुल जमाराशियां                             | 104,952.8                 | -888.6                    | 6,849.9              | 11,679.9        | 8,771.8        | 12,770.1        |
| 2.1क वृद्धि (प्रतिशत)                          |                           | -0.8                      | 8.0                  | 12.5            | 10.5           | 13.9            |
| 2.1.1 मांग                                     | 10,644.3                  | -161.5                    | 180.9                | 1,754.4         | 747.9          | 2,523.1         |
| 2.1.2 मीयादी                                   | 94,308.4                  | -727.2                    | 6,668.9              | 9,925.5         | 8,023.9        | 10,246.9        |
| 2.2 उधारियां                                   | 3,280.9                   | 59.3                      | 620.2                | 291.1           | 725.1          | 401.9           |
| 2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं                | 4,835.6                   | -298.5                    | -42.3                | -204.8          | 155.7          | 305.9           |
| <b>3 रिज़र्व बैंक से उधार</b>                  | <b>158.8</b>              | <b>-4.0</b>               | <b>37.4</b>          | <b>-2,165.9</b> | <b>521.5</b>   | <b>-1,460.7</b> |
| <b>4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि</b> | <b>4,957.0</b>            | <b>-96.1</b>              | <b>156.4</b>         | <b>508.2</b>    | <b>414.3</b>   | <b>536.3</b>    |
| 4.1 उपलब्ध नकदी                                | 637.0                     | -111.8                    | 79.3                 | 62.7            | 93.1           | 24.2            |
| 4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि               | 4,320.0                   | 15.6                      | 77.1                 | 445.6           | 321.2          | 512.1           |
| <b>5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां</b>       |                           |                           |                      |                 |                |                 |
| 5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष                     | 1,930.9                   | -41.3                     | 292.3                | 314.1           | 378.1          | 264.4           |
| 5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि         | 167.7                     | -70.3                     | -20.8                | -181.2          | -10.0          | -37.5           |
| 5.3 बैंकों को अग्रिम                           | 308.7                     | -11.0                     | 82.8                 | 48.1            | 138.8          | 36.7            |
| 5.4 अन्य आस्तियां                              | 353.3                     | 9.3                       | 68.6                 | -24.5           | 196.6          | -143.8          |
| <b>6 निवेश</b>                                 | <b>35,830.2</b>           | <b>-521.7</b>             | <b>2,075.9</b>       | <b>9,575.1</b>  | <b>2,092.0</b> | <b>8,836.0</b>  |
| 6.1क वृद्धि (प्रतिशत)                          |                           | -1.4                      | 8.3                  | 36.5            | 8.4            | 32.7            |
| 6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में                    | 35,801.8                  | -535.0                    | 2,078.0              | 9,562.5         | 2,092.1        | 8,826.3         |
| 6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में             | 28.4                      | 13.4                      | -2.1                 | 12.6            | -0.2           | 9.7             |
| <b>7 बैंक ऋण</b>                               | <b>74,177.8</b>           | <b>43.6</b>               | <b>5,190.6</b>       | <b>1,681.6</b>  | <b>6,915.5</b> | <b>3,623.0</b>  |
| 7.1क वृद्धि (प्रतिशत)                          |                           | 0.1                       | 7.9                  | 2.3             | 10.9           | 5.1             |
| 7क.1 खाद्य ऋण                                  | 1,040.1                   | -27.2                     | 77.7                 | -12.4           | -8.1           | 18.3            |
| 7क.2 खाद्येतर ऋण                               | 73,137.6                  | 70.8                      | 5,112.9              | 1,694.0         | 6,923.6        | 3,604.7         |
| 7ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट                 | 72,152.9                  | 77.9                      | 5,235.1              | 1,815.7         | 6,899.9        | 3,794.0         |
| 7ख.2 देशी बिल-खरीदे गए                         | 201.0                     | -7.0                      | -77.0                | -56.1           | -81.4          | -66.1           |
| 7ख.3 भुनाए गए                                  | 1,196.2                   | -29.7                     | 105.4                | -92.5           | 153.3          | -109.2          |
| 7ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए                       | 232.0                     | -8.3                      | -29.1                | 27.6            | -30.3          | 19.9            |
| 7ख.5 भुनाए गए                                  | 395.7                     | 10.7                      | -43.8                | -13.1           | -25.9          | -15.7           |

## 5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

| मद/समाप्त समाह                                            | 2016      | 2017      |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                           | 5 फरवरी   | 6 जनवरी   | 13 जनवरी  | 20 जनवरी  | 27 जनवरी  | 3 फरवरी   |
|                                                           | 1         | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| <b>अनुपात</b>                                             |           |           |           |           |           |           |
| आरक्षित नकदी निधि अनुपात                                  | 4.00      | 4.00      | 4.00      | 4.00      | 4.00      | 4.00      |
| सांविधिक चलनिधि अनुपात                                    | 21.50     | 20.75     | 20.50     | 20.50     | 20.50     | 20.50     |
| नकदी-जमाराशि अनुपात                                       | 4.77      | 4.77      | ..        | 4.72      | ..        | ..        |
| ऋण-जमाराशि अनुपात                                         | 76.42     | 70.04     | ..        | 70.68     | ..        | ..        |
| वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात                               | 74.52     | 13.03     | ..        | 14.40     | ..        | ..        |
| निवेश-जमाराशि अनुपात                                      | 29.51     | 34.35     | ..        | 34.14     | ..        | ..        |
| वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात                            | 32.71     | 80.33     | ..        | 81.98     | ..        | ..        |
| <b>दरें</b>                                               |           |           |           |           |           |           |
| नीतिगत रिपो दर                                            | 6.75      | 6.25      | 6.25      | 6.25      | 6.25      | 6.25      |
| रिवर्स रिपो दर                                            | 5.75      | 5.75      | 5.75      | 5.75      | 5.75      | 5.75      |
| मार्जिनल स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर                        | 7.75      | 6.75      | 6.75      | 6.75      | 6.75      | 6.75      |
| बैंक दर                                                   | 7.75      | 6.75      | 6.75      | 6.75      | 6.75      | 6.75      |
| आधार दर                                                   | 9.30/9.70 | 9.25/9.65 | 9.25/9.65 | 9.25/9.65 | 9.25/9.65 | 9.25/9.65 |
| एमसीएलआर (एक दिवसीय)                                      | ..        | 7.75/9.00 | 7.75/8.20 | 7.75/8.20 | 7.75/8.20 | 7.75/8.20 |
| सावधी जमा दर >1 वर्ष                                      | 7.00/7.90 | 6.50/7.00 | 6.50/7.00 | 6.50/7.00 | 6.50/7.00 | 6.50/7.00 |
| बचत जमाराशि दर                                            | 4.00      | 4.00      | 4.00      | 4.00      | 4.00      | 4.00      |
| मांग मुद्रा दर (भारत और औसत)                              | 6.67      | 6.07      | 6.09      | 5.98      | 5.98      | 6.00      |
| 91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय                         | 7.35      | 6.19      | 6.27      | 6.27      | 6.23      | 6.19      |
| 182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय                        | ..        | ..        | 6.29      | ..        | 6.22      | ..        |
| 364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय                        | 7.27      | 6.25      | ..        | 6.25      | ..        | 6.21      |
| 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय                             | 7.68      | 6.66      | 6.78      | 6.86      | 6.87      | 6.75      |
| <b>भारिबैं संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिया</b>             |           |           |           |           |           |           |
| भारतीय रुपया-अमरीकी डॉलर स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा) | 67.64     | 67.95     | 68.23     | 68.09     | 68.20     | 67.38     |
| भारतीय रुपया-यूरो स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)        | 75.73     | 71.87     | 72.48     | 72.73     | 72.75     | 72.44     |
| अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिआ 1-माह                     | 6.12      | 4.59      | 5.10      | 5.46      | 4.40      | 4.45      |
| 3-माह                                                     | 6.56      | 4.59      | 4.87      | 4.93      | 4.84      | 4.99      |
| 6-माह                                                     | 6.37      | 4.62      | 4.66      | 4.64      | 4.68      | 4.63      |

## 6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ बिलियन)

| मद                                                 | निम्न को बकाया |           | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |      |                      |       |           |       |              |      |          |       |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------|------|----------------------|-------|-----------|-------|--------------|------|----------|-------|
|                                                    | 2016           | 2017      | पखवाड़ा                    |      | वित्त वर्ष में अब तक |       |           |       | वर्ष-दर-वर्ष |      |          |       |
|                                                    |                |           |                            |      | 2015-2016            |       | 2016-2017 |       | 2016         |      | 2017     |       |
|                                                    | 31 मार्च       | 20 जनवरी  | राशि                       | %    | राशि                 | %     | राशि      | %     | राशि         | %    | राशि     | %     |
|                                                    | 1              | 2         | 3                          | 4    | 5                    | 6     | 7         | 8     | 9            | 10   | 11       | 12    |
| एम <sub>3</sub>                                    | 116,176.2      | 121,561.0 | 108.9                      | 0.1  | 8,701.5              | 8.2   | 5,384.9   | 4.6   | 11,188.8     | 10.9 | 7,357.9  | 6.4   |
| 1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)                            |                |           |                            |      |                      |       |           |       |              |      |          |       |
| 1.1 जनता के पास मुद्रा                             | 15,972.5       | 9,126.8   | 1,014.5                    | 12.5 | 1,310.9              | 9.5   | -6,845.7  | -42.9 | 1,662.8      | 12.3 | -6,046.0 | -39.8 |
| 1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि                     | 9,898.3        | 11,778.1  | -168.9                     | -1.4 | 199.8                | 2.2   | 1,879.7   | 19.0  | 825.4        | 10.0 | 2,662.0  | 29.2  |
| 1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि                   | 90,150.8       | 100,500.8 | -736.5                     | -0.7 | 7,210.0              | 8.7   | 10,350.1  | 11.5  | 8,657.5      | 10.7 | 10,713.2 | 11.9  |
| 1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि             | 154.5          | 155.3     | -0.2                       | -0.1 | -19.3                | -13.2 | 0.8       | 0.5   | 43.1         | 51.6 | 28.7     | 22.7  |
| 2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)                      |                |           |                            |      |                      |       |           |       |              |      |          |       |
| 2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण                          | 32,384.8       | 39,293.5  | 683.1                      | 1.8  | 2,851.0              | 9.5   | 6,908.6   | 21.3  | 2,003.0      | 6.5  | 6,368.5  | 19.3  |
| 2.1.1 रिज़र्व बैंक                                 | 4,250.0        | 1,390.8   | 1,199.2                    |      | 441.4                |       | -2,859.1  |       | -507.6       |      | -2,695.8 |       |
| 2.1.2 अन्य बैंक                                    | 28,134.9       | 37,902.6  | -516.1                     | -1.3 | 2,409.6              | 9.1   | 9,767.7   | 34.7  | 2,510.6      | 9.5  | 9,064.3  | 31.4  |
| 2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण                     | 78,030.7       | 79,671.6  | 62.5                       | 0.1  | 5,568.7              | 7.9   | 1,640.9   | 2.1   | 7,430.9      | 10.8 | 3,605.6  | 4.7   |
| 2.2.1 रिज़र्व बैंक                                 | 200.8          | 49.4      | —                          |      | -78.8                |       | -151.5    |       | 10.8         |      | -20.3    |       |
| 2.2.2 अन्य बैंक                                    | 77,829.9       | 79,622.2  | 62.5                       | 0.1  | 5,647.5              | 8.0   | 1,792.3   | 2.3   | 7,420.0      | 10.8 | 3,625.9  | 4.8   |
| 2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां | 25,337.2       | 26,444.1  | 156.0                      | 0.6  | 1,909.4              | 8.5   | 1,106.9   | 4.4   | 3,931.1      | 19.2 | 2,028.2  | 8.3   |
| 2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं          | 219.1          | 246.2     | —                          | —    | 20.8                 | 10.7  | 27.1      | 12.4  | 24.3         | 12.8 | 31.0     | 14.4  |
| 2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुदेतर देयताएं         | 19,795.6       | 24,094.3  | 792.7                      | 3.4  | 1,648.5              | 9.3   | 4,298.6   | 21.7  | 2,200.4      | 12.8 | 4,675.5  | 24.1  |
| 2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुदेतर देयताएं          | 9,541.7        | 9,482.7   | 183.1                      | 2.0  | 1,364.9              | 17.4  | -59.1     | -0.6  | 1,461.3      | 18.8 | 265.0    | 2.9   |

## 7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ बिलियन)

| मद                                                               | निम्न को बकाया |          | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |      |                      |       |           |       |              |      |          |       |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------------------|------|----------------------|-------|-----------|-------|--------------|------|----------|-------|
|                                                                  | 2016           | 2017     | सप्ताह                     |      | वित्त वर्ष में अब तक |       |           |       | वर्ष-दर-वर्ष |      |          |       |
|                                                                  |                |          |                            |      | 2015-2016            |       | 2016-2017 |       | 2016         |      | 2017     |       |
|                                                                  | 31 मार्च       | 3 फरवरी  | राशि                       | %    | राशि                 | %     | राशि      | %     | राशि         | %    | राशि     | %     |
|                                                                  | 1              | 2        | 3                          | 4    | 5                    | 6     | 7         | 8     | 9            | 10   | 11       | 12    |
| आरक्षित मुद्रा                                                   | 21,807.4       | 15,342.8 | 371.1                      | 2.5  | 1,009.9              | 5.2   | -6,464.6  | -29.6 | 2,139.8      | 11.8 | -4,951.8 | -24.4 |
| 1 घटक (1.1+1.2+1.3)                                              |                |          |                            |      |                      |       |           |       |              |      |          |       |
| 1.1 संचलन में करेंसी                                             | 16,634.6       | 10,491.3 | 324.1                      | 3.2  | 1,538.1              | 10.6  | -6,143.4  | -36.9 | 1,806.1      | 12.7 | -5,530.0 | -34.5 |
| 1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंकर की जमाराशि                         | 5,018.3        | 4,695.6  | 44.5                       | 1.0  | -508.8               | -10.9 | -322.6    | -6.4  | 290.6        | 7.5  | 548.8    | 13.2  |
| 1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि                           | 154.5          | 155.9    | 2.6                        | 1.7  | -19.4                | -13.3 | 1.4       | 0.9   | 43.0         | 51.6 | 29.4     | 23.3  |
| 2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)                                    |                |          |                            |      |                      |       |           |       |              |      |          |       |
| 2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण                | 4,250.0        | 3,828.7  | 1,726.2                    |      | 1,212.2              |       | -421.3    |       | 92.1         |      | -1,028.8 |       |
| 2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण             | 4,245.6        | 3,810.1  | 1,725.8                    |      | 1,238.9              |       | -435.5    |       | 96.1         |      | -1,039.2 |       |
| 2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण | 3,045.4        | -3,839.1 | -1,367.7                   |      | -889.3               |       | -6,884.4  |       | 284.3        |      | -4,974.8 |       |
| 2.2.1 बैंकों पर रिज़र्व बैंक के निवल दावे                        | 2,844.5        | -3,888.4 | -1,369.4                   |      | -805.6               |       | -6,733.0  |       | 275.4        |      | -4,959.4 |       |
| 2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां                  | 23,834.8       | 24,483.5 | -176.0                     | -0.7 | 2,325.5              | 10.9  | 648.7     | 2.7   | 3,316.4      | 16.4 | 885.2    | 3.8   |
| 2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता                          | 219.1          | 246.2    | —                          | —    | 20.8                 | 10.7  | 27.1      | 12.4  | 24.3         | 12.8 | 31.0     | 14.4  |
| 2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुदेतर देयता                            | 9,541.7        | 9,376.5  | -188.6                     | -2.0 | 1,659.3              | 21.1  | -165.3    | -1.7  | 1,577.3      | 19.9 | -135.6   | -1.4  |

## 8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ बिलियन)

| दिनांक        | चलनिधि समायोजन सुविधा |             |                     |                            | एमएसएफ | स्थायी चलनिधि सुविधा | बाजार स्थिरीकरण योजना | ओएमओ (एकमुश्त) |      | निवल अंतर्वेशन (+) / अवशोषण (-)<br>(1+3+5+6+9-2-4-7-8) |
|---------------|-----------------------|-------------|---------------------|----------------------------|--------|----------------------|-----------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------|
|               | रिपो                  | रिवर्स रिपो | परिवर्तनशील रिपो दर | परिवर्तनशील रिवर्स रिपो दर |        |                      |                       | विक्रय         | क्रय |                                                        |
|               | 1                     | 2           | 3                   | 4                          |        |                      |                       | 8              | 9    |                                                        |
| 30 जनवरी 2017 | 19.40                 | 84.02       | —                   | 763.53                     | —      | 1.70                 | —                     | —              | —    | -826.45                                                |
| 31 जनवरी 2017 | 18.50                 | 91.57       | 28.75               | 814.11                     | 1.00   | —                    | —                     | —              | —    | -857.43                                                |
| 1 फरवरी 2017  | 14.00                 | 134.22      | —                   | 1060.36                    | 75.00  | —                    | —                     | —              | —    | -1105.58                                               |
| 2 फरवरी 2017  | 14.00                 | 83.93       | —                   | 1552.05                    | —      | —                    | —                     | —              | —    | -1621.98                                               |
| 3 फरवरी 2017  | 16.90                 | 174.04      | 35.50               | 1516.73                    | —      | —                    | —                     | —              | —    | -1638.37                                               |
| 4 फरवरी 2017  | 61.00                 | 23.67       | —                   | —                          | —      | —                    | —                     | —              | —    | 37.33                                                  |

## 9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

| मद                                                           | 2015   |         | 2016   |         | निम्नलिखित अवधि में प्रतिशत घट-बढ़ |       |      |
|--------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------------------|-------|------|
|                                                              | नवम्बर | दिसम्बर | नवम्बर | दिसम्बर | माह                                | मार्च | वर्ष |
|                                                              | 1      | 2       | 3      | 4       | 5                                  | 6     | 7    |
| 1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)                          | 126.6  | 126.1   | 131.2  | 130.4   | - 0.6                              | 3.5   | 3.4  |
| 1.1 ग्रामीण                                                  | 128.3  | 127.9   | 133.6  | 132.8   | - 0.6                              | 3.8   | 3.8  |
| 1.2 शहरी                                                     | 124.6  | 124.0   | 128.5  | 127.6   | - 0.7                              | 3.1   | 2.9  |
| 2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001=100) | 270.0  | 269.0   | 277.0  | 275.0   | - 0.7                              | 2.6   | 2.2  |
| 3 थोक मूल्य सूचकांक (2004-05=100)                            | 177.5  | 176.8   | 183.1  | 182.8   | - 0.2                              | 4.3   | 3.4  |
| 3.1 प्राथमिक वस्तुएं                                         | 256.2  | 255.6   | 259.4  | 256.3   | - 1.2                              | 4.1   | 0.3  |
| 3.2 ईंधन और बिजली                                            | 178.1  | 176.8   | 190.7  | 192.1   | 0.7                                | 11.4  | 8.7  |
| 3.3 विनिर्मित उत्पाद                                         | 153.0  | 152.4   | 157.9  | 158.0   | 0.1                                | 2.5   | 3.7  |

## 10. जमा प्रमाणपत्र

| समाप्त पखवाड़ा  | बकाया राशि<br>(₹ बिलियन) | पखवाड़े के दौरान        |                       |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                 |                          | जारी राशि<br>(₹ बिलियन) | ब्याज दर<br>(प्रतिशत) |
|                 |                          | 2                       | 3                     |
| 23 दिसम्बर 2016 | 1,468.0                  | 16.7                    | 6.00 - 6.49           |
| 6 जनवरी 2017    | 1,448.9                  | 76.7                    | 6.27 - 6.55           |

## 11. वाणिज्यिक पत्र

| समाप्त पखवाड़ा | बकाया राशि<br>(₹ बिलियन) | पखवाड़े के दौरान        |                       |
|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                |                          | जारी राशि<br>(₹ बिलियन) | ब्याज दर<br>(प्रतिशत) |
|                |                          | 2                       | 3                     |
| 15 जनवरी 2017  | 4,065.9                  | 582.9                   | 6.15 - 14.19          |
| 31 जनवरी 2017  | 3,813.7                  | 504.6                   | 6.19 - 14.21          |

## 12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ बिलियन)

| मद                       | समाप्त सप्ताह |               |              |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------|
|                          | 5 फरवरी 2016  | 27 जनवरी 2017 | 3 फरवरी 2017 |
|                          | 1             | 2             | 3            |
| 1 मांग मुद्रा            | 195.3         | 209.9         | 195.2        |
| 2 नोटिस/सावधि मुद्रा     | 99.9          | 14.7          | 95.1         |
| 3 सीबीएलओ                | 1,030.4       | 1,603.8       | 1,806.6      |
| 4 बाजार रिपो             | 1,561.0       | 1,366.8       | 2,073.4      |
| 5 कॉरपोरेट बांड में रिपो | 0.4           | 2.0           | 1.3          |

## 13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ बिलियन)

| 3 फरवरी 2017 को | प्रमुख धारक |                   |               | कुल     |
|-----------------|-------------|-------------------|---------------|---------|
|                 | बैंक        | प्राथमिक व्यापारी | राज्य सरकारें |         |
|                 | 1           | 2                 | 3             |         |
| 91-दिवसीय       | 189.3       | 204.8             | 583.1         | 1,652.5 |
| 182-दिवसीय      | 258.3       | 382.9             | 174.4         | 900.9   |
| 364-दिवसीय      | 602.6       | 501.5             | 26.9          | 1,502.4 |
| सीएमबी          | 1,777.8     | 682.6             | —             | 3,000.0 |

## 14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा ली गई बाजार उधारियां

(अंकित मूल्य ₹ बिलियन में)

| मद               | जुटाई गई सकल राशि            |                              |         | जुटाई गई निवल राशि           |                              |         |
|------------------|------------------------------|------------------------------|---------|------------------------------|------------------------------|---------|
|                  | 2016-17<br>(3 फरवरी 2017 तक) | 2015-16<br>(5 फरवरी 2016 तक) | 2015-16 | 2016-17<br>(3 फरवरी 2017 तक) | 2015-16<br>(5 फरवरी 2016 तक) | 2015-16 |
|                  | 1                            | 2                            | 3       | 4                            | 5                            | 6       |
| 1. भारत सरकार    | 5,600.0                      | 5,710.0                      | 5,850.0 | 3,862.0                      | 4,266.3                      | 4,406.3 |
| 2. राज्य सरकारें | 2,979.0                      | 2,338.1                      | 2,945.6 | 2,685.5                      | 2,041.6                      | 2,593.7 |

डब्ल्यूएसएस के लिए संकल्पनाएं तथा उन पर आधारित कार्यप्रणालियां डब्ल्यूएसएस हस्तपुस्तिका [www.rbi.org.in/scripts/publicationsView.aspx?id=15762](http://www.rbi.org.in/scripts/publicationsView.aspx?id=15762) में उपलब्ध है। समय श्रृंखला आंकड़े इंटरनेट पर <http://dbie.rbi.org.in> में उपलब्ध हैं।

श्री सुनिल कुमार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 की ओर से संपादित एवं प्रकाशित।